



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 2007/पौष 14, 1928

No. 7]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2007/PAUSA 14, 1928

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2006

का.आ. 7(अ).—कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) जिसे कयर उद्योग नियमावली, 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पढ़ा जा सकता है, की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की दिनांक 24 मई, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 703(अ) में नामतः निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 1 और संबंधित प्रविष्टियों में नामतः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“श्री ए. सी. जोस

अध्यक्ष”

(दिनांक 15 सितम्बर, 2005 के का.आ. 3895 के तहत नियुक्त किया गया)

[फा. सं. 6(1)/2005-कयर]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : बोर्ड के गठन की अधिसूचना दिनांक 24 मई, 2005 की सं. का.आ. 703(अ), के तहत जारी की गई और 19 अप्रैल, 2006 की सं. का.आ. 581(अ), के तहत संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2006

S.O. 7(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Coir Industry Rules, 1954, the Central Government hereby makes following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agro and Rural Industries number S.O. 703(E), dated the 24th May, 2005, namely :—

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“Shri A. C. Jose

Chairman”

(appointed *vide* S.O. 3895, dated the 15th September, 2005)

[F. No. 6(1)/2005-Coir]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Note : The notification for constitution of the Board was issued *vide* S.O. 703(E), dated the 24th May, 2005 and was amended *vide* S.O. 581(E), dated the 19th April, 2006.